



बैंक ऑफ बड़ोदा
Bank of Baroda
India's International Bank

जमा पुष्टि सूचना / Deposit Confirmation Advice

KABBU KHIRHAR
SHANKAR CHOWK
DUMRA SITAMARHI
843301
INDIA

सावधि खाता क्र./ FD A/c No	44250300010111
सावधि सूचना क्र./ FD Advice No	FDR1503243618
कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No	DJH085883
व्यवहार खाता / Linked Operative a/c	44250400000089
शाखा का नाम/Branch Name	DUMRABIHAR
संयुक्त धारक / Joint Holder (s)	
अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अवयस्क है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)	

योजना / Scheme	FIXED DEPOSIT - RIRD(RES)
नामांकन / Nomination	N
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.	
पैन नंबर / PAN No.	AAIFK4003B
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	SELF
लियन चिह्नित / Lien Markod	N

Dep. Interest,
E.E. R.W.D. WORKS
Division, PUPRI
18/06/24

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	ब्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
3600000	15-03-2024	6.85	24 Months 0 Days	15-03-2026	4123796

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) / Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्त/Terms & Conditions:

- ब्याज दर प्रतिवर्ष में वार्षिक है
- स्वतः नवीकरण क्लॉज
- यदि अवधि अवधि में दो बार 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण 30 महीने पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुसार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा
- कोई निदेश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण दो बार 30 महीने पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुसार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा
- फॉर्म 15 जी और 15एच निदेश देना अनिवार्य है
- निम्नलिखित व्यक्ति प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निश्चित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15 जी और 15एच फॉर्म जमा करवा देना अनिवार्य है अन्यथा ब्याज पर कर काटोती की जाएगी
- यदि एक केवल वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष से अधिक उम्र) से भी स्वीकार किया जाएगा
- परिपक्वता अहरण क्लॉज
- यदि 1 करोड़ से कम की जमा राशि को समयपूर्व खींचने पर 1% ब्याज का प्रावधान है अर्थात् फॉर्म 15एच के जारी होने की तिथि पर लागू काई दर से 1% कम ब्याज का भुगतान किया जाएगा
- यदि 1 करोड़ से अधिक की जमा राशि को समयपूर्व खींचने पर 1.5% ब्याज का प्रावधान है अर्थात् फॉर्म 15एच के जारी होने की तिथि पर लागू काई दर से 1.5% कम ब्याज का भुगतान किया जाएगा
- यदि 1 करोड़ से अधिक की जमा राशि को समयपूर्व खींचने पर 1.5% ब्याज का प्रावधान है अर्थात् फॉर्म 15एच के जारी होने की तिथि पर लागू काई दर से 1.5% कम ब्याज का भुगतान किया जाएगा
- यदि 1 करोड़ से अधिक की जमा राशि को समयपूर्व खींचने पर 1.5% ब्याज का प्रावधान है अर्थात् फॉर्म 15एच के जारी होने की तिथि पर लागू काई दर से 1.5% कम ब्याज का भुगतान किया जाएगा
- यदि 1 करोड़ से अधिक की जमा राशि को समयपूर्व खींचने पर 1.5% ब्याज का प्रावधान है अर्थात् फॉर्म 15एच के जारी होने की तिथि पर लागू काई दर से 1.5% कम ब्याज का भुगतान किया जाएगा
- यदि 1 करोड़ से अधिक की जमा राशि को समयपूर्व खींचने पर 1.5% ब्याज का प्रावधान है अर्थात् फॉर्म 15एच के जारी होने की तिथि पर लागू काई दर से 1.5% कम ब्याज का भुगतान किया जाएगा
- यदि 1 करोड़ से अधिक की जमा राशि को समयपूर्व खींचने पर 1.5% ब्याज का प्रावधान है अर्थात् फॉर्म 15एच के जारी होने की तिथि पर लागू काई दर से 1.5% कम ब्याज का भुगतान किया जाएगा

- Rate of Interest is in percentage per annum.
- Automatic Renewal Clause
- For Deposits issued for a period of 1 year and above: Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise
- For Deposits issued for a period of less than 1 year: Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
- Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only
- A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted
- Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more)
- Premature Withdrawal Clause
- Premature withdrawal of deposit less than Rs. 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank
- Premature withdrawal of deposit for Rs. 1 crore and above will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit Rs. 1 crore and above a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank
- In case of "NON-CALLABLE DEPOSIT" - Premature withdrawal not allowed

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature

M/S Kabbu Khirhar
Pantay & Co. Partner

18.6.24

Executive Engineer

R.W.D., Works Div., PUPRI



Scanned with OKEN Scanner

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, पुपरी (सीतामढ़ी)

पत्रांक-.....1478..... पुपरी, दिनांक-.....18/06/2024.....

सेवा में

शारदा प्रबंधक
बैंक ऑफ बिहार
हुमरा, सीतामढ़ी।

विषय : - प्रतिज्ञित FD/TD/NSC/BG को सम्पुष्टि करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि संवेदक मै. ० रकखू रिश्हर
का निम्नांकित FD/TD/NSC/BG जो आपके द्वारा अद्योहस्ताक्षरी के पदनाम
से प्रतिज्ञित किया गया है, को सम्पुष्टि कर शीघ्र सूचना दी जाय, ताकि तदनुसार अग्रेतर
कार्रवाई किया जाय।

क्र०सं०	FD/TD/NSC/BG	राशि	तिथि
1.	44250300010111	36,00,000/-	15.03.24.

verified & found
18/06/24

विश्वासभाजन ,

for Scanned
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, पुपरी (सीतामढ़ी)
18/06/24